

अपहरण के आरोप में अभियुक्तगण गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक उत्तरी, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व में आज दिनांक 02.09.2021 को मै प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार शुक्ला मय हमराह हे0का0 लल्लन यादव, का0 रजनीश दूबे, के मय बोलेरो सरकारी यू0पी0 53 ए0जी- 1349 के मय चालक हे0का0 रविशंकर के थाना स्थानीय से खाना होकर देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त, रात्रि गस्त में मामूर होकर भोपा बाजार चौराहे पर अपराध व अपराधियों के बारे में हमराहियों से बात चीत कर रहा था कि उ0नि0 रविसेन यादव, उ0नि0 मदन मोहन मिश्र, हे0का0 देवेन्द्र यादव, रि0का0 प्रिन्स कुमार राय तलविदा मौके पर उपस्थित आये हम सभी पुलिस वाले आपस में बात चीत कर ही रहे थे कि जरिये मुखबीर खास आकर सूचना दिया कि आप के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त मुन्दीका निषाद पुत्र लालबिहारी निषाद निवासी कुसहरी थाना बरियारपुर जनपद देवरिया की तरफ से आ रहा है तथा गोरखपुर की जाने वाला है अगर जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके मै प्रभारी निरीक्षक मय हमराही उ0नि0 रविसेन यादव, उ0नि0 मदन मोहन मिश्र, हे0का0 लल्लन यादव, का0 रजनीश दूबे, हे0का0 देवेन्द्र यादव, रि0का0 प्रिन्स कुमार राय, के मय बोलेरो सरकारी यू0पी0 53 ए0जी- 1349 के मय चालक हे0का0 रविशंकर के मय मुखबीर खास को लेकर भोपा चौराहे से खाना होकर मझना नाला के पास हम पुलिस टीम खुद को छिपते छिपाते आने वाले व्यक्ति का इन्तजार कर ही रहे थे कि देवरिया की तरफ से एक व्यक्ति आता दिखायी दिया कि मुखबीर खास ने बताया कि वही व्यक्ति है जिसके हाथ मे एक प्लास्टिक का झोला है जो सामने से आ रहा है यह कहते हुए मुखबीर खास तेज कदमो मौके से हट बढ गया कि हम पुलिस टीम देवरिया के तरफ से आ रहे व्यक्ति को एक बारगी दविश देकर चारो तरफ से घेर घार कर पकड़ लिये । पकडे गये व्यक्ति से उसके सहयोगी के बारे मे पूछा गया तो उसने अपने सहयोगी का नाम चन्दन कुमार मौर्या पुत्र सतीश मौर्या निवासी ग्राम अमडिहा थाना झगहा गोरखपुर बताया । और बताया कि साहब हमलोग तंत्र-मंत्र विद्या की सिद्धी के लिए बच्चे को महिला के द्वारा उठवाये थे । फिर हम पुलिस द्वारा मुद्रिका के बताये अनुसार चन्दन कुमार मौर्या को ग्राम देवीपुर से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. मुन्दीका निषाद पुत्र लालबिहारी निषाद निवासी कुसहरी थाना बरियारपुर जनपद देवरिया
2. चन्दन कुमार मौर्या पुत्र सतीश मौर्या निवासी ग्राम अमडिहा थाना झगहा गोरखपुर

बरामदगी -

एक प्लास्टिक के झोले से एक ताम्र धातु नूमा लुटिया , कुछ मुनके के माला तथा छोटे छोटे तीन डिब्बो में क्रमशः सिन्दूर, कपूर, लवंग, लोहबान, नीबू, काला व विभिन्न रंग के धागे

पंजीकृत मुकदमा -

मु0अ0स0 321/21 धारा 364 भादवि0

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार शुक्ला
2. उ0नि0 रविसेन यादव
3. उ0नि0 मदन मोहन मिश्र
4. हे0का0 लल्लन यादव
5. का0 रजनीश दूबे
6. हे0का0 देवेन्द्र यादव
7. रि0का0 प्रिन्स कुमार राय